

थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से नोट छापने वाले 04 जालसाज गिरफ्तार, 07 लाख रुपये के जाली नोट एवं जाली नोट छापने के विभिन्न उपकरण बरामद ।

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा श्रीमती सुनीति के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा श्री अजय प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 07.02.2021 को थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा कांठ रोड बाईपास तिराहा से चैकिंग के दौरान समय- प्रातः 03.30 बजे एक कार में सवार पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे 04 शातिर जालसाज अभियुक्त (1) नजारूल हसन पुत्र हाजी अरकान निवासी सीकरी मिलक थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद (2) डा0 नफीस अहमद सैफी पुत्र जमील अहमद निवासी कमालपुर फतिहाबाद थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद (3) अरविन्द कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी मौ0 अहमद नगर निकट चामुण्डा मन्दिर थाना अमरोहा नगर व (4) कामिल तेली पुत्र हफीज निवासी मौ0 अहमद नगर निकट चामुण्डा मन्दिर थाना अमरोहा नगर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से पांच-पांच सौ के जाली नोट (07 लाख रुपये) एवं नोट छापने के विभिन्न उपकरण बरामद हुये। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अमरोहा नगर पर मु0अ0स0 42/2021 धारा 489ए,489बी,489सी,489डी भादवि बनाम नजारूल हसन आदि उपरोक्त व श्रीमती साजिया उर्फ संजू पत्नी स्व0 मुजम्मिल मन्सूर निवासी मौ0 अहमद नगर थाना अमरोहा नगर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जाली नोटों की भारी बरामदगी के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभागों को सूचना प्रेषित की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण से बरामद चैक की छायाप्रति SBI जिस पर चैक नम्बर 565980 व खाता धारक ओमप्रकाश के हस्ताक्षर बने हैं तथा दिनांक 08.01.2021 को 08 लाख 01 हजार रुपये श्रीराम कन्सट्रक्सन के पक्ष में निर्गत किया जाना अंकित है। बरामद हुये इस चैक की छायाप्रति के बारे में पूछताछ पर अभियुक्तगण ने बताया गया कि यह फर्जी कूटरचित चैक की छायाप्रति है जिसका असल चैक हम चारो ने मिलकर बनाया था तथा हमारे गिरोह की सदस्य श्रीमती साजिया उर्फ संजू पत्नी स्व0 मुजम्मिल मन्सूर निवासी मौ0 अहमद नगर थाना अमरोहा नगर से स्टेट बैंक मैन बाजार जट का लगवाया था। उक्त के सम्बन्ध में थाना अमरोहा नगर पर मु0अ0स0 41/2021 धारा 452,467,468,471 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के जालसाज अभियुक्त हैं जो नकली नोट व जाली/कलोन चैक बनाकर अवैध रूप से धन अर्जित करते हैं। अभियुक्तगणों से गहनता से पुछताछ करते हुये अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. नजारूल हसन पुत्र हाजी अरकान निवासी सीकरी मिलक थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद ।
2. डा0 नफीस अहमद सैफी पुत्र जमील अहमद निवासी कमालपुर फतिहाबाद थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद ।
3. अरविन्द कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी मौ0 अहमद नगर निकट चामुण्डा मन्दिर थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।
4. कामिल तेली पुत्र हफीज निवासी मौ0 अहमद नगर निकट चामुण्डा मन्दिर थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

बरामदगी का विवरण: -

1. 07 लाख रुपये के पांच-पांच सौ के नकली नोट ।
2. 01 लैपटाप, 01 लेमिनेशल/कटर मशीन, 02 प्रिन्टर, 01 नोट गिनने की मशीन ।
3. पेपर रिम, प्रिन्टर इंक, पेपर रोल, तीन कटर आदि ।
4. 25 ATM कार्ड, 04 मोबाईल फोन, 01 NPS कार्ड व 02 चैक छायाप्रति SBI व नगद 11500 रुपये ।
5. एक कार रजि0न0 UK06 V5533 ।

गिरफ्तार अभियुक्त नजारूल हसन पुत्र हाजी का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 042/2021 धारा 489ए/489वी/489सी/489डी भादवि थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 041/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि ।

गिरफ्तार अभियुक्त डा0 नफीस अहमद सैफी पुत्र जमील का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 042/2021 धारा 489ए/489वी/489सी/489डी भादवि थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 64/2018 धारा 420/489/489ए/489वी/489सी/489डी भादवि थाना ईकोटेक-3 नोएडा ।

3. मु0अ0सं0 041/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि ।

गिरफ्तार अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र अनिल का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 042/2021 धारा 489ए/489वी/489सी/489डी भादवि थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

2. मु0अ0सं0 041/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि ।

गिरफ्तार अभियुक्त कामिल तेली पुत्र हफीज का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 042/2021 धारा 489ए/489वी/489सी/489डी भादवि थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

2. मु0अ0सं0 041/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीश्रक श्री रविन्द्र सिंह थाना अमरोहा नगर, अमरोहा ।
2. वरि0उ0नि0 श्री रामप्रकाश शर्मा थाना थाना अमरोहा नगर, अमरोहा ।
3. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना अमरोहा नगर, अमरोहा ।
4. हे0का0 192 योगेश कुमार थाना थाना अमरोहा नगर, अमरोहा ।
5. का0 184 उमेश कुमार थाना अमरोहा नगर, अमरोहा ।
6. का0 1262 सुनील कुमार थाना अमरोहा नगर, अमरोहा ।
7. का0 1139 कन्हैया थाना अमरोहा नगर, अमरोहा ।
8. का0 1124 पंकज शर्मा थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।